



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-03.01.2022

### कुल 871.92 लीटर अवैध शराब के साथ अभियुक्त प्रेमचंद्र थाना चोलापुर पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अवैध मदिरा बिक्री/निर्माण तथा परिवहन की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना चोलापुर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त प्रेमचन्द्र पुत्र स्व० देवराज निवासी पुरे-धुरसाह थाना-चोलापुर जनपद-वाराणसी के मकान पर दिनांक-02.01.2023 को छापा मारा गया और अन्दर जाकर देखा गया तो गत्ते के डिब्बे रखे हुए थे, जिन पर श्री कृष्णा ब्रैंड ORGANIC FRUIT PULPS AND JUICES AMLA COSTOMER CARE No-18001609090 अंकित होना पाया गया। इन गत्तो को खोलकर देखा गया तो कैप्टन ब्लू गोल्ड विस्की ब्रांड के 468 बोतले (प्रत्येक की धारिता 750 ml), ब्लू स्टोक विस्की ब्रांड के 744 अर्धे (प्रत्येक की धारिता 375 ml), स्पेशल प्रिमियम विस्की ब्रांड के 1344 पऊवा (प्रत्येक की धारिता 180 ml) विदेशी मदिरा की शीशियाँ भरी थी। बरामदशुदा माल को कब्जा पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त प्रेमचंद्र को समय 21.45 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना चोलापुर में मु०अ०सं०-0001/2023 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि पंजीकृत कर अग्रतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रेमचन्द्र पुत्र स्व० देवराज निवासी पुरे-धुरसाह थाना-चोलापुर जनपद-वाराणसी उम्र लगभग 60 वर्ष।  
बरामदगी का विवरण- कैप्टन ब्लू गोल्ड विस्की ब्रांड की 468 बोतले (प्रत्येक की धारिता 750 ml), ब्लू स्टोक विस्की ब्रांड के 744 अर्धे (प्रत्येक की धारिता 375 ml), स्पेशल प्रिमियम विस्की ब्रांड के 1344 पऊवा (प्रत्येक की धारिता 180 ml) कुल बरामद।

पूछताछ का विवरण- बरामद मदिरा के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्त प्रेमचन्द्र ने बताया कि यह मेरा मकान है, जिसे संतोष मौर्या निवासी हरदासीपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी ने किराये पर लिया था और उनके द्वारा ही यह गत्ते लाकर कुछ दिन पूर्व यहाँ रखे गये थे। मुझे माफ कर दीजिये कुछ पैसे की लालच में आकर मैंने इसे अपने मकान में रखवा दिया था। संतोष मौर्या व उनके साथ तीन अन्य लोग मिलकर अन्य प्रान्त से अवैध मदिरा जो खाद्य तेल तथा जूस के गत्ते में छिपाकर धोखाधड़ी करके खाद्य पदार्थ की आड़ में अवैध शराब बिहार प्रान्त में भेजते हैं।

#### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 उमेश कुमार राय चौकी प्रभारी अजगरा थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2.उ0नि0 विकाश पाण्डेय थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 3.हे0का0 पंकज सिंह थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 4.का0 सत्य प्रकाश यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 5.का0 दीपेन्द्र सिंह थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 6.आबकारी निरीक्षक जिलाजित सिंह सेक्टर-03 वाराणसी।
- 7.प्रधान अबकारी सिपाही शिवप्रसाद वर्मा सेक्टर-03 वाराणसी।
- 8.आबकारी सिपाही मोती लाल यादव सेक्टर-03 वाराणसी।
- 9.आबकारी सिपाही अमन कुमार सेक्टर-03 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

